



# एक भारत श्रेष्ठ भारत

## Aaj Ka Vakya

Let's learn one sentence every day in 22 different Indian Languages

### 32. I always keep my surroundings clean.

<b>ASSAMESE</b>	মই সদায় মোৰ চৌপাশ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখোঁ	Moi sodai mur soupas poriskar kori rakhu.
<b>BENGALI</b>	আমি সবসময় আমাৰ আশেপাশেৰ জায়গা পৰিষ্কাৰ ৰাখি।	Aami sobsomoy aamar aashepasher jay- ga poriskar rakhi.
<b>BODO</b>	আং জেব্লায়বো আংনি সোরগিদিং সিখোন- সাখোন লাখियो।	Ang jayblai bw angni swrgiding sikwn- sakwn lakiyw.
<b>DOGRI</b>	में अपने आले-दुआले म्हेशां साफ़-सफाई रखनां।	Men apane aale-duaale mheshaan saaph-safaa_ii rakhanaan.
<b>GUJARATI</b>	હું હંમેશાં મારો આસપાસનો વિસ્તાર સાફ રાખું છું.	Hun humesha mara aspas no vistar saaf raku chhu.
<b>HINDI</b>	में अपने आस-पास हमेशा सफाई रखता हूँ.	Main apne aas paas hamesha safai rakhta hoon.
<b>KANNADA</b>	ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.	Naanu yavagalu nanna suttamuttalina pradeshagalannu swachavagittukollut- tene.
<b>KASHMIRI</b>	بہ چھس پرتھ وِز پَن اَوْنْد پوک صاف تھاون۔	Be chus prath wazi panun aund pok saf thawan.
<b>KONKANI</b>	हांव सदांच म्हजें सरभोंवतण नितळ दवरतां.	Haanv sadaamch mhajem sarbhovtann nitall davartaam.
<b>MAITHILI</b>	हम सदिखन अपन लगपास के स्वच्छ रखैत छी।	Ham sadikhan apan lagpas ke swachh rakhait chi.
<b>MALAYALAM</b>	ഞാൻ എല്ലാപ്പോഴും എന്റെ പരിസരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നു.	Njaan eppozhum ente parisaram vrithiyaayi ooskshikkunnu.
<b>MANIPURI</b>	ঐ মতম চুপ্পদা ঐগী অকোয়বশিং লু- নান্না থাম্মি	Ei matam chuppa eigi akoibasing lu- nanna thammi.

<b>MARATHI</b>	मी नेहमीच माझ्या आसपासचा परिसर स्वच्छ ठेवतो.	Mee nehmich maajhyaa aaspaascha parisar swachchh thevto.
<b>NEPALI</b>	म आफ्नो वरिपरी सधैं साफ-सफाई राख्ने गर्छु।	Ma afno waripari sadhai saaf-safai rakhne garchu.
<b>ODIA</b>	ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଚାରିପାଖକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିଥାଏ	Mun sabubele mo charipakhaku pariskara rakhithae.
<b>PUNJABI</b>	ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।	Mai hamesha apne aale-duaale nu saaf rakhda han.
<b>SANSKRIT</b>	अहं सर्वदैव स्वपाश्वरस्थं वातावरणं स्वच्छं सन्धारयामि।	Aham sardevam swaparshrvsth vatavranam swacham sandharyami.
<b>SANTALI</b>	इंअ आडि पासेत् साफा सपी दोहो काम्।	Inak' ade pase safa safi doho kaam.
<b>SINDHI</b>	مان هميشه پنهنجي اردگرد صفائي رکندو آهيان.	Maan hameshaa pahinje ird gird safai akhando aahiyān.
<b>TAMIL</b>	எனது சுற்றுப்புறத்தை நான் எப்போதும் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்கிறேன் .	Enadhu sutruppuraththai naan eppodhum thooimaiyaaga vaithu kolgiren.
<b>TELUGU</b>	నేను ఎప్పుడూ నా పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంచుతాను.	Nēnu eppuḍū nā parisarālu pariśubhraṅgā uñcutānu.
<b>URDU</b>	میں اپنے ارد گرد ہمیشہ صفائی رکھتا ہوں۔	Main apne ird gird hamesha safai rakhta hoon.